


  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**



असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1977/कार्तिक 10, 1899

No 216] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1977/KARTIKA 10, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 1st November 1977*

SUBJECT.—*Import of Dates (S. No 0801) from Oman (Muscat) during 1977-78 on annual basis.*

No. 96-ITC(PN)/77.—It has been decided to grant licences for import of dates from Oman (Muscat), on annual basis, during 1977-78 licensing period on the following basis —

	Quota
(i) Established Importers having past imports of dates from Oman (Muscat) upto Rs 12,500/-	Minimum value licence of Rs. 12,500/- each.
(ii) Established importers having past imports of dates from Oman (Muscat) between Rs. 12,500/- and Rs 15 lakhs	50 per cent subject to a minimum of Rs. 12,500/-
(iii) Established importers having past imports of dates from Oman (Muscat) between Rs 1,50,001/- and Rs 5 lakhs	45 per cent, subject to a minimum of Rs 75,000/-
(iv) Established importers having past imports of dates from Oman (Muscat) over Rs 5 lakhs	40 per cent, subject to a minimum of Rs 2,25,000/-

2 The licences will be granted on the basis of past imports of dates from Oman (Muscat) in any one of the years of the prescribed basic period, namely 1956-57 to 1969-70

3. Established importers, who had imported this item from the above country by sailing vessels/Steamers may accordingly submit their applications to the Joint sailing vessels/Steamers may accordingly submit their applications to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, on or before the 30th November, 1977 in the usual form and manner, complete in all respects. Late/incomplete applications are liable to be rejected. No past import documents are required to be produced, provided such documents were submitted to the licensing authority concerned in the past and were accepted by them for issue of licences for import of dates from Oman (Muscat). They should, however, quote details of licences obtained in the preceding two periods. Where, however, the established importers are applying for the first time, they are required to produce unimpeachable documents relating to past imports of 'dates' from Oman (Muscat) during any one year within the prescribed basic years.

4. All applicants should furnish along with their applications detailed information regarding the manner of import and disposal of dates imported against the licences obtained during the last period, namely 1976-77 in the proforma as at Annexure to this Public Notice.

5. Import licences granted to the eligible established importers will be valid upto 31st August, 1978. No extension will be allowed under any circumstances. The importers are, however, free to utilise the full value of the licences any time within their validity period.

6. Licences issued in terms of above paragraphs will be valid for import upto 60 per cent by sailing vessels and the balance by steamers, etc.

7. It may be noted that the minimum value of import licences for dates from Oman (Muscat) during 1977-78 will be Rs. 12,500/- (Rupees twelve thousand and five hundred only) subject to the provisions contained in para 45(2) of I.T.C. Handbook of Rules and Procedure, 1977-78, with regard to division of quotas. It may be clarified in this context that the provisions of paragraph 120 of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Vol. I) for the period April '77-March '78, relating to minimum and maximum value of licences, will not apply to the licences issued in terms of this Public Notice. But the provisions of paragraph 121 of Section I of I.T.C. Policy Book (Vol. I) for the period April 1977—March 1978 will apply in cases involving division of quota rights.

ANNEXURE

IMPORT OF DATES FROM OMAN (MUSCAT)

Name & full address of the applicant . . . . .

Period	Total value of the import licence(s) received along with Number(s) and date(s) of licences	Name & address of Omani exporter from whom goods imported	Total quantity and value of goods imported		Was the import effected directly, if not, name and full address of the agent through whom imported	How were the goods disposed of? If not through your own sales establishment, name and full address of the party(ies) through whom disposed of	Remarks, if any
			Qty (Weight) in Kgs.	Value Rs.			
1	2	3	4	5	6	7	8

1976-77

K. V. SESHADRI,  
Chief Controller of Imports and Exports

## वाणिज्य मंत्रालय

## सार्वजनिक सूचना

## आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

**विषय.**—वार्षिक आधार पर 1977-78 के दौरान ओमन (मस्कत) से खजूरों (क्रम सं० 08.01) का आयात ।

सं० 96-आईटीसी (पीएन)/77.—वार्षिक आधार पर लाइसेंस अवधि 1977-78 के दौरान निम्नलिखित आधार पर ओमन (मस्कत) से खजूरों का आयात करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का निश्चय किया गया है :—

## कोटा

- |  |  |
|--|--|
| (1) वे सुस्थापित आयातक जिनका ओमन (मस्कत) से खजूरों का भूतकालीन आयात 12,500 रु० तक है ।                           | 12,500 रुपये न्यूनतम मूल्य का प्रत्येक लाइसेंस ।     |
| (2) वे सुस्थापित आयातक जिनका ओमन (मस्कत) से खजूरों का भूतकालीन आयात 12,500 रुपये और 15 लाख रुपये के बीच है ।     | 50 प्रतिशत, यह न्यूनतम 12,500 रु० मूल्य के अधीन है । |
| (3) वे सुस्थापित आयातक जिनका ओमन (मस्कत) से खजूरों का भूतकालीन आयात 1,50,001 रुपये और है 5 लाख रुपये के बीच है । | 45%, यह न्यूनतम 75,000 रुपये मूल्य के अधीन है ।      |
| (4) वे सुस्थापित आयातक जिनका ओमन (मस्कत) से खजूरों का भूतकालीन आयात 5 लाख रुपये से अधिक का है ।                  | 40%, यह न्यूनतम 2,25,000 रुपये मूल्य के अधीन है ।    |

2 लाइसेंस, निर्धारित मूल अवधि अर्थात् 1956-57 से 1969-70 तक के वर्षों में से किसी एक वर्ष में ओमन (मस्कत) से खजूरों के भूतकालीन आयातों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे ।

3 वे सुस्थापित आयातक जिन्होंने इस मद का आयात उपर्युक्त देश से जलपोतो/स्टीमर्स द्वारा किया था उन्हें चाहिए कि वे अपने आवेदन-पत्र सामान्य प्रपत्र में एब विधि से सभी प्रकार से पूर्ण करके 30 नवम्बर, 1977 को या इससे पूर्व संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई को भेजें । विलम्ब से अपूर्ण आवेदन-पत्रों को अस्वीकार किया जा सकता है । किसी प्रकार के भूतकालीन आयातों से सम्बद्ध दस्तावेजों का भेजने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि इस प्रकार के दस्तावेज ओमन (मस्कत) से खजूरों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए उनके द्वारा सम्बद्ध लाइसेंस अधिकारी को पहले भेजे गए थे और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था । लेकिन, उन्हें चाहिए कि वे पूर्व दो अवधियों में प्राप्त किए गए लाइसेंसों के ब्यौरो का संकेत करें । लेकिन, जिस मामले में सुस्थापित आयातक पहली बार आवेदन कर रहे हों उसमें उन्हें निर्धारित मूल वर्षों में से किसी एक वर्ष के इस दौरान ओमन (मस्कत) से 'खजूरों' के भूतकालीन आयातों से सम्बन्धित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक है ।

4. सभी आवेदकों को चाहिए कि वे अपने आवेदन-पत्रों के साथ प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दिए गए प्रपत्र में गत अवधि अर्थात् 1976-77 के दौरान प्राप्त लाइसेंसों के मद्दे आयातित खजूरों के आयात की विधि एवं निपटान के बारे में विस्तृत सूचना भेजे।

5. पात्र सुस्थापित आयातकों को प्रदान किए गए आयात लाइसेंस 31 अगस्त, 1978 तक वैध होंगे। किसी भी परिस्थिति में समय वृद्धि के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी। लेकिन आयातक लाइसेंसों की वैधता अवधि के भीतर किसी भी समय लाइसेंसों के पूर्ण मूल्य का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

6. उपर्युक्त कंडिकाओं की शर्तों के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस 60% तक पालपोतो द्वारा और शेष स्टीमरों आदि द्वारा आयात के लिए वैध होंगे।

7. यह नोट कर लिया जाए कि आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि हैडबुक, 1977-78 की कोटा विभाजन से संबंधित कंडिका 45(2) में निहित शर्तों के अधीन ओमन (मस्कत) से 1977-78 के दौरान खजूरों के आयात के लिए आयात लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 12,500/- रुपये (बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अप्रैल 77-मार्च 78 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) के खण्ड-1 के लाइसेंसों के न्यूनतम और उच्चतम मूल्य से संबंधित कंडिका 120 की शर्तें इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होगी। लेकिन, अप्रैल, 1977-मार्च 1978 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) के खण्ड 1 की कंडिका 121 की व्यवस्थाएं कोटा अधिकार के विभाजन के मामले में लागू होंगी।

**अनुबंध**  
**ओमन से खजूरों का आयात**

आवेदक का नाम और पूरा पता

अवधि	प्राप्त किए गए आयात लाइसेंस (सो) की संख्या (ओ) एवं तिथि (यो) के साथ कुल मूल्य	ओमन के उस निर्यातक का नाम एवं पता जिस में माल का आयात किया गया था	आयातित माल की कुल मात्रा एवं मूल्य ----- मात्रा (कि० मूल्य रु० श० में बजन)	क्या आयात सीधे ही किया गया था, यदि नहीं तो उस अभिकर्ता का नाम और पूरा पता बताएं जिसके माध्यम से आयात किया गया था	माल का कैसे निपटान किया गया था ? यदि आपके स्वयं विक्रय संस्थान के माध्यम से नहीं किया गया तो उस पार्टी (पार्टियों) का नाम और पूरा पता बताएं जिसके माध्यम से निपटान किया गया था	टिप्पणी यदि कोई हो ?	
1	2	3	4	5	6	7	8

1976-77

का वे० शेषाद्वि,  
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंग्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977